



कर्क राशि

वाले

वर्ष 2018 में



क्या उपाय करें...

क्या

न

करें...



क्या न करें वर्ष 2018 में

- * अहंकार अति दुःखद डमरुआ इस वर्ष अहंकार से बचना बहुत जरूरी है।
- * अहंकार से भरा मस्तिष्क परमात्मा को पसंद नहीं है। अहंकार युक्त व्यवहार बना बनाया काम बिगाड़ देगा।
- * प्रेम चाहिए तो प्रेम देना होगा।
- * मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें।

क्या उपाय करें वर्ष 2018 में

स्वास्थ्य में सुधार के लिए

- * शिवमहिमन स्तोत्र का पाठ करें। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
- * साल भर हर सोमवार पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें।

पारिवारिक सुख-शांति व बाधा निवारण के लिए

- * प्रतिदिन 11 पाठ बजरंग बाण का करें।
- * हर सोमवार को श्रद्धानुसार कच्चे चावल अपने ऊपर से 7 बार उसारकरके किसी गरीब निर्धन सुहागन स्त्री को दान में दें।

आर्थिक सुदृढ़ता के लिए

- * हर रोज चौमुखा गाय के घी का दीपक जलाकर पंचाक्षरी शिव मंत्र की 11 माला जाप करें।
- * मूली, शलजम, गाजर रात को सिरहाने रखकर सुबह चुपचाप किसी शिव मंदिर में रखकर आ जाये।।

संपूर्ण संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 4 मुखी 2 दानें और 6 मुखी 2 दानें और 13 मुखी 5 दानें रुद्राक्ष लाल धागे में सोमवार के दिन शुभ महूर्त में धारण करें। स्वच्छता का ध्यान रखें।